

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में IPV-Inactivated Polio Vaccine की शुरुआत

राज्य में स्वास्थ्य विभाग (DOHFW) के द्वारा संचालित **नियमित टीकाकरण कार्यक्रम** (0-1 वर्ष के बच्चे लिए) के तहत **IPV-Inactivated Polio Vaccine** के लागू किये जाने की तैयारी में राज्य के सभी जिलों से आये जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी(DIO) एवं चिकित्सा पदाधिकारी(MO) का एक दिवसीय कार्यशाला राँची के स्थानिय होटल **रेडिसन-ब्लू** में दिनांक 04 एवं 05 अगस्त' 2015 को आयोजित किया गया ज्ञात हो कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर माह 2015 से सम्पूर्ण देश में **IPV-Inactivated Polio Virus Vaccine** लॉन्च किया जा रहा है । इसके तहत नव -जात बच्चों को 14 सप्ताह पर मिलने वाले पोलियो के ड्रॉप (दो बूंद) के साथ अब आई पी वी (IPV) की एक सुई भी दी जानी है □ **कार्यक्रम का आयोजन** स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार एवं WHO की राज्य इकाई (NPS) के सनयुक्त तत्वधान में किया गया □ **कार्यक्रम में सहयोगी संस्था UNICEF के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे ।**

विभाग के प्रधान सचिव श्री काशी विद्या सागर ने जिला से आये प्रतिरक्षण पदाधिकारियों को हर जिले में आई पी वी (IPV) के लॉच पर किये जाने वाले सभी तैयारियों को सुनिश्चित करने का आदेश दिया □ प्रधान सचिव ने जिले में आई पी वी (IPV) ट्रेनिंग को ससमय पूरा कर लेने को कहा । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक श्री आशीष सिंहमार ने अवसर पर कम प्रदर्शन करने वाले जिले एवं ब्लाक (low performing blocks) पर विशेष ध्यान देने को कहा । अभियान निदेशक ने खराब प्रदर्शन करने वाले ब्लाक का सीधा अनुश्रवण अपने कार्यालय से किये जाने की बात कही । निदेशक प्रमुख ने अपने अनुभव को साझा करते हुए विश्वास दिलाया की पूर्व के कार्यक्रम के तरह ही सरकार टीकाकरण के इस कार्यक्रम को भी सफल बनाने में हर संभव सक्षम है □ **कार्यक्रम का समनवय एवं संचालन** राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी (SIO) डॉ अजित कुमार प्रसाद एवं WHO के रिजनल टीम लीडर डॉ देवाशीष राय ने किया । " **पोलियो End Game**" रणनीति के तहत **पुरे विश्व में आई पी वी (IPV) सुई को लागू किया जाना है ।** कार्यशाला में आई पी वी (IPV) सुई महत्ता एवं आवश्यकता पर विसतरित परिचर्या की गयी ।